

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1970/फाल्गुन 4, 1891

No. 58]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1970/PHALGUNA 4, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th February, 1970

S.O. 716.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of seeds of the varieties specified in column (1) of the Table below, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the varieties specified in the said column to be notified varieties for the purposes of the said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Variety	Areas for which notified
I	2
<i>Paddy</i>	
1. Jhona—20	} Haryana
2. Jhona—349	
3. Padma	} Delhi
4. NP—130	

I

2

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 5. Jaya | Haryana and Delhi |
| 6. ADT—27 | |
| 7. CO—25 | } Tamil Nadu |
| 8. Co—29 | |
| 9. CO—32 | |
| 10. ASD—5 | |
| 11. Manoharsali | } Assam |
| 12. China—63 | |

Wheat

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Chhoti Lerma | } Mysore |
| 2. Safed Lerma | |
| 3. Kalyansona | Assam and Rajasthan |
| 4. NP—718 | } Rajasthan |
| 5. RS 31—1 | |
| 6. Kharchia—65 | |
| 7. PV. —18 | Haryana |
| 8. Sonalika | Madhya Pradesh & Assam |

Maize

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Hybrid Maize Ganga 101 | Madhya Pradesh and Tamil Nadu |
| 2. Hybrid Maize Ganga Safed2 | Andhra Pradesh and Rajasthan |
| 3. Hybrid Maize Ganga—3 | Maharashtra and Madhya Pradesh |
| 4. Hybrid Maize Ganga—5 | Andhra Pradesh and Rajasthan |
| 5. Hybrid Maize Deccan | Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Maharashtra, and Madhya Pradesh |
| 6. Hybrid Maize Hi-Starch | Andhra Pradesh |
| 7. Bassi Selected | Rajasthan |
| 8. Vijay Composite Makka | Delhi and Assam |
| 9. Sona Composite Makka | Delhi |
| 10. Vikram Composite Makka | Assam |

Bajra

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Hybrid Bajra No. 1 | } Delhi |
| 2. Hybrid Bajra No. 4 | |

Barley

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. R. S.—17 | } Rajasthan |
| 2. R. S.—6 | |

Gram

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. R. S.—10 | } Rajasthan |
| 2. R. S. II | |

Ragi

- | | |
|-----------|--------|
| 1. Poorua | Mysore |
|-----------|--------|

Cotton

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Badnawar—1 | Indore and Bhopal regions in Madhya Pradesh |
| 2. L—147 | Bhopal region in Madhya Pradesh |
| 3. Jagdish (B—1007) | Bhopal regions in Madhya Pradesh |
| 4. Maljari | Indore, Bhopal, Jabalpur, regions in Madhya Pradesh |
| 5. PST—9 | Mewar Tract viz. Udaipur, Bhilwara and Chittorgarh Districts in Rajasthan. |

Cabbage

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Golden Acre | } Andhra Pradesh |
| 2. Pusa Drum Head | |
| 3. Gopenhagen | |

Cauliflower

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Snowball—16 | Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh and Delhi. |
| 2. Pusa Katki 7 | Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi. |

I	2
<hr/>	
<i>Tomato</i>	
1. Sioux	Andhra Pradesh
2. Pusa Ruby	Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi.
3. S—12	Haryana
4. Marglobe	Madhya Pradesh
5. S—120	Delhi.
<i>Bhindi</i>	
1. Pusa Sawani	Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan
<i>Brinjal</i>	
1. Pusa Purple Long	Rajasthan and Delhi.
2. Pusa Purple Round	
<i>Peas</i>	
1. Bonneville	Madhya Pradesh, Delhi and Rajasthan.
2. Perfection New Line	
<i>Musk Melon</i>	
1. Hara Madhu	Haryana
<i>Castor</i>	
1. NPH—1	Andhra Pradesh and Mysore

This notification shall come into force with immediate effect.

[No. F. 7(2)/70-SD.]

राज्य, कृषि, सानुवायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1970

एस० नो० 716:—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति के परामर्श के बाद, इस धारणा पर पहुँची है कि निम्न तालिका के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट कृषि के लिये बेचे जाने वाले बीजों की किस्मों की श्रेणी को विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, उपरोक्त तालिका के स्तम्भ (2) की तदनुसारी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, उपर्युक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट किस्मों को एतद्वारा अधिसूचित किस्मों घोषित करती है :—

तालिका

किस्म	जिन क्षेत्रों के लिये अधिसूचित किया गया
1	2
धान	
1. झोना-20	हरियाणा
2. झोना-349	

1

2

3. पद्मा . . .	दिल्ली
4. बून० पी०-130 . . .	दिल्ली
5. जया . . .	हरियाणा और दिल्ली
6. ए० डी० टी०-27 } . . .	तमिल नाडु
7. सी० ओ०-25 . . .	
8. सी० ओ०-29 . . .	
9. सी० ओ०-32 . . .	
10. ए० एस० डी०-5 } . . .	असम
11. मनोहरसाली . . .	
12. चायना-63 . . .	

गेड्डं

1. छोटी लरमा . . .	मंसूर
2. सफेद लरमा . . .	
3. कल्याणसोना . . .	असम और राजस्थान
4. एन० पी०-718 } . . .	राजस्थान
5. आर० एस०-31-1 } . . .	
6. करचिन्ना-65 . . .	हरियाणा
7. पी० वी०-18 . . .	
8. सोनालिका . . .	
	मध्य प्रदेश और असम

मक्का

1. संकर मक्का गंगा-101 . . .	मध्य प्रदेश और तमिल नाडु
2. संकर मक्का गंगा सफेद-2 . . .	आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान
3. संकर मक्का गंगा-3 . . .	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
4. संकर मक्का गंगा-5 . . .	आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान
5. संकर मक्का दक्षिण . . .	आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, मंसूर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
6. संकर मक्का एच० आई० स्टार्च . . .	आन्ध्र प्रदेश
7. वासी सलेक्टेड . . .	राजस्थान
8. विजय मिश्रित मक्का . . .	दिल्ली और असम
9. सीना मिश्रित मक्का . . .	दिल्ली
10. विक्रम मिश्रित मक्का . . .	असम

बाजरा

1. संकर बाजरा-1 } . . .	दिल्ली
2. संकर बाजरा-4 } . . .	

1

2

बी

- | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------|
| 1. आर० ए०-17 | } | . | . | राजस्थान |
| 2. आर० एस०-6 | | | | |

बना

- | | | | | |
|---------------|---|---|---|----------|
| 1. आर० एस०-10 | } | . | . | राजस्थान |
| 2. आर० एस०-11 | | | | |

रागी

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. पूर्णा | मैसूर |
|---------------------|-------|

कपास

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. बदनावार-1 | मध्य प्रदेश के इन्दौर और भोपाल क्षेत्र |
| 2. एल-147 | मध्य प्रदेश का भोपाल क्षेत्र; |
| 3. जगदीश (बी-1007) | मध्य प्रदेश का भोपाल क्षेत्र; |
| 4. मालजारी | मध्य प्रदेश के इन्दौर, भोपाल, जबलपुर क्षेत्र |
| 5. पी० एस० टी०-9 | राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र अर्थात् उदयपुर भील-वाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले |

बन्वगोभी

- | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---------------|
| 1. गोलडन एकरे | } | . | . | आन्ध्र प्रदेश |
| 2. पूसा ब्रूम हैड | | | | |
| 3. कोपनहेगन | | | | |

फूलगोभी

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. स्नोबाल-16 | आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश |
| 2. पूसा कातकी | आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली |

टमाटर

- | | |
|------------------------|--|
| 1. सिओक्स | आन्ध्र प्रदेश |
| 2. पूसा लूबी | आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली |
| 3. एस०-12 | हरियाणा |
| 4. मारग्लोब | मध्य प्रदेश |
| 5. स०-120 | दिल्ली |

भिन्डी

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. पूसा सावनी | आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान |
|-------------------------|---|

बैंगन

- | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--------------------|
| 1. पूसा बैंगनी लम्बे | } | . | . | राजस्थान और दिल्ली |
| 2. पूसा बैंगनी गोल | | | | |

1	2
मटर	
1. बोनेविल्ले } 2. परफेक्शन न्यू लाइन }	मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान
खरबूजा	
1. हरा मधु . . .	हरियाणा
एरंडी	
1. एन० पी० एच०-1 . . .	आन्ध्र प्रदेश और मेसूर

यह अधिसूचना तत्काल ही प्रवृत्त हो जायेगी

[सं० 7 (2)/70-बीज विकास]

S.O. 717.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby specifies the limits of germination and purity mentioned in columns (2) and (3) respectively of the Table, as the minimum limits of germination and purity with respect to the seed of the notified varieties mentioned in the corresponding entries in column (1) of the said Table, namely:—

TABLE

Variety	Minimum limits of germination in per cent	Minimum limit of purity in per cent
1	2	3
<i>Paddy</i>		
1. Jhona—10 14	70	97.0
2. Jhona—349	70	97.0
3. CO—29	70	97.0
4. CO—32	70	97.0
5. ASD—5	70	97.0
6. Manoharsali	70	97.0
7. China—63	70	97.0
8. NP—130	70	97.0
<i>Wheat</i>		
1. NP—718	80	97.0
2. RS-31-I	80	97.0
3. Kharchia—65	80	97.0
4. Chhoti Lerma	80	97.0
<i>Maize</i>		
1. Hybrid Maize Deccan	80	97.0
<i>Barley</i>		
1. R.S.—17	75	97.0
2. R. S. 6	75	97.0
<i>Gram</i>		
1. R. S.—10	75	97.0
2. R. S.—11	75	97.0

1	2	3
<i>Ragi</i>		
1. Poorna	70	97.0
<i>Cotton</i>		
1. Badnawar—1	65	95.0
2. L—147	65	95.0
3. Maljari	65	95.0
4. Jagdish (B—1007)	65	95.0
<i>Peas</i>		
1. Bonneville	70	96.0
2. Perfecton New Line	70	96.0
<i>Cabbage</i>		
1. Golden Acre	65	97.0
2. Pusa Drum Head	65	97.0
3. Copenhagen	65	97.0
<i>Cauliflower</i>		
1. Snowball—16	60	97.0
2. Pusa Katki	60	97.0
<i>Tomato</i>		
1. Sioux	65	97.0
2. Pusa Ruby	65	97.0
3. S—12	65	97.0
4. Marglobe	65	97.0
5. S—120	65	97.0
<i>Brinjal</i>		
1. Pusa Purple Long	65	97.0
2. Pusa Purple Round	65	97.0
<i>Musk Melon</i>		
1. Hara Madhu	65	98.0
<i>Castor</i>		
1. NPH—1	80	98.0

This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 7(2)/70-SD.]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy

एन० प्रो० 717—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के खंड 6 की धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति के परामर्श के बाद क्रमशः तालिका के सामं (2) प्रौर (3) में लिखित प्रंकुरण प्रौर शुद्धता की सीमा को, उक्त तालिका

के स्तम्भ (1) की तदनुकूली प्रविष्टियों में उल्लिखित अधिसूचित किस्मों के बीजों की अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा के रूप में, एनद् द्वारा विनिश्चित करती है, अर्थात् :—

तालिका

किस्म	अंकुरण की न्यूनतम सीमा—प्रतिशत में	शुद्धता की न्यूनतम सीमा—प्रतिशत में
1	2	3
धान		
1. झोना-20	70	97.0
2. झोना-349	70	97.0
3. सी० ओ० 29	70	97.0
4. सी० ओ०-32	70	97.0
5. ए० एस० डी०-5	70	97.0
6. मनोहरसाली	70	97.0
7. चायन-63	70	97.0
8. एन० पी०-130	70	97.0
गहूँ		
1. एन० पी०-718	80	97.0
2. आर० एस०-31-1	80	97.0
3. करचिआ-65	80	97.0
4. छोटी लरमा	80	97.0
मक्का		
1. संकर मक्का दक्षिण	80	97.0
जौ		
1. आर० एस०-17	75	97.0
2. आर० एस०-6	75	97.0
जन्मा		
1. आर० एस० 10	75	97.0
2. आर० एस०-11	75	97.0
रागी		
1. पूर्णा	70	97.0
कपास		
1. बदनाबर-1	65	95.0
2. एल०-147	65	95.0
3. मालजरी	65	95.0
4. जगदीश (बी-1007)	65	95.0

	1	2	3
भट्टर			
1. बोन्नेविल्ले		70	96.0
2. परफेक्शन न्यू लाइन		70	96.0
बन्धगोभी			
1. गोल्डन एकरे		65	97.0
2. पूसा डूमहैड		65	97.0
3. कोपनहैगन		65	97.0
फूलगोभी			
1. स्नोवाल-16		60	97.0
2. पूसा कातकी (अग्नेती)		60	97.0
ठमाटर			
1. सप्रौक्स		65	97.0
2. पूसा रुबी		65	97.0
3. एस०-12		65	97.0
4. मारग्लोव		65	97.0
5. एस०-120		65	97.0
बैंगन			
1. पूसा बैंगनी लम्बे		65	97.0
2. पूसा बैंगनी गोल		65	97.0
खरबूजा			
1. हरा मधु		65	98.0
एरंडी			
1. एन० पी० एच०-1		80	98.0

यह अधिसूचना तत्काल ही प्रवृत्त हो जायेगी ।

[सं० 7 (2)/70-बीज विकास]

मै० मु० ह० वर्नी, संयुक्त सचिव ।

